

-प्रेस नोट-

जनपद-मीरजापुर

दिनांक-22.09.2021

थाना को0देहात पुलिस द्वारा चोरी की 35 अदद बैटरी(कीमत करीब ₹ 2.1 लाख) के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार —

ज्ञातव्य हो कि दिनांक 19/20.09.2021 की रात्रि को सत्यम् इण्टर प्राइजेज टाटा शोरूम के बगल चुनार रोड भरुहना से 35 अदद बैटरी(एस0एफ0सोनिक) चोरी हो जाने के सम्बन्ध में थाना को0देहात पर वादी जय प्रकाश मौर्य पुत्र रामअवध निवासी कैलाशपुरी कॉलोनी रमईपट्टी थाना को0शहर मीरजापुर की तहरीर के आधार पर दिनांक 20.09.2021 को मु0अ0सं0-172/2021 धारा 380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। थाना स्थानीय पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग की विवेचना व अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर दिनांक 21.09.2021 को प्राप्त मुखबिर की सूचना पर उ0नि0 विनोद कुमार यादव चौकी प्रभारी भरुहना व उ0नि0 विष्णु प्रभा सिंह चौकी प्रभारी गुरुसण्डी मय हमराह द्वारा 35 अदद बैटरी(एस0एफ0सोनिक) तथा चोरी के माल के परिवहन में प्रयुक्त टाटा मैजिक वाहन संख्या UP70DT5958 को जौसरा मोड़ के पास से बरामद करते हुए तीन अभियुक्तों 1- सुनील कुमार विश्वकर्मा उर्फ प्रीतम कुमार पुत्र स्व0 शिवनाथ निवासी बेदौली कला थाना को0देहात मीरजापुर उम्र-32 वर्ष , 2-सुरेश कुमार यादव उर्फ पांचू पुत्र कुल्लर यादव निवासी कजरहवा पोखरा थाना को0शहर मीरजापुर उम्र – 27वर्ष सहित एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि वे टाटा मैजिक वाहन उपरोक्त से चोरी की बैटरी को बेचने हेतु वाराणसी ले जा रहे थे कि पकड़ लिए गए। प्रयुक्त टाटा मैजिक वाहन उपरोक्त को 207 एम0वी0 एकट में सीज किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण—

1. सुनील कुमार विश्वकर्मा उर्फ प्रीतम कुमार पुत्र स्व0 शिवनाथ निवासी बेदौली कला थाना को0देहात मीरजापुर उम्र-32 वर्ष।
2. सुरेश कुमार यादव उर्फ पांचू पुत्र कुल्लर यादव निवासी कजरहवा पोखरा थाना को0शहर मीरजापुर उम्र – 27 वर्ष।
- 3 बाल अपचारी

विवरण बरामदगी—

1-कुल 35 अदद बैटरी(08 अदद इन्वर्टर की बैटरी , 01अदद कार की बैटरी व 26 अदद मो0साइकिल की बैटरी)

2- टाटा मैजिक वाहन संख्या: UP70DT5958.

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय—

जौसर मोड़ के पास से , दिनांक 21.09.2021 को समय 22.30 बजे ।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

1. उ0नि0 विनोद कुमार यादव चौकी प्रभारी भरुहना थाना को0देहात मीरजापुर ।
2. उ0नि0 विष्णु प्रभा सिंह चौकी प्रभारी गुरुसण्डी थाना को0देहात मीरजापुर ।
3. का0 अजीत कुमार यादव चौकी भरुहना थाना को0देहात मीरजापुर ।
4. का0 मुकेश कुमार गौड चौकी भरुहना थाना को0देहात मीरजापुर ।
5. का0 आर्दश सिंह चौहान चौकी गुरुसण्डी थाना को0देहात मीरजापुर ।

